



September 19, 2020

BSE Limited

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.

Scrip code: 512529

Dear Sir / Madam,

National Stock Exchange of India Limited

Listing Department Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Symbol: SEQUENT

Sub: Post Offer Advertisement for Open Offer for acquisition of up to 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares") of Sequent Scientific Limited ("Target Company"), representing 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital, from the Public Shareholders of the Target Company, by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer ("Open Offer" or "Offer")

With reference to the above mentioned subject, please find enclosed a copy of the Post Offer Advertisement dated September 17, 2020 as received from Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited, the Manager to the Offer, which was published on September 18, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).

We wish to take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SeQuent Scientific Limited

Krunai Snan

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A/a





Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Registered Office: Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India Telephone +91 22 4037 4037 Facsimile +91 22 4037 4111 Website www.nomura.com

September 18, 2020

The Board of Directors Sequent Scientific Limited 301, 3rd Floor, Dosti Pinnacle, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane West – 400 604, Maharashtra, India

Kind Attn: Mr. Krunal Shah, Company Secretary and Compliance Officer

Re: Open offer for acquisition of up to 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares") of Sequent Scientific Limited ("Target Company"), representing 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital, from the Public Shareholders of the Target Company, by CA Harbor Investments ("Acquirer"), together with CAP V Mauritius Limited ("PAC"), in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer ("Open Offer")

Pursuant to and in compliance with Regulations 3(1), 4 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations"), the Acquirer together with the PAC is making an open offer for acquisition of up to 64,576,459 (Sixty Four Million Five Hundred Seventy Six Thousand Four Hundred and Fifty Nine) fully paid up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees two only) each of the Target Company, constituting 26% (twenty six percent) of the Expanded Voting Share Capital of the Target Company (as of the 10th working day from the closure of the tendering period for the Offer). Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited is acting as the Manager to the Offer.

In this regard, the Acquirer, together with PAC, had made a Public Announcement for the Offer dated May 8, 2020 ("PA"), which was duly intimated to BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Target Company on May 8, 2020. A copy of the PA was filed with SEBI on May 11, 2020. Further, the Detailed Public Statement for the Offer dated May 14, 2020 ("DPS"), was published on May 15, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Subsequently, the draft letter of offer dated May 22, 2020 ("Draft Letter of Offer" or "DLoF") was filed with the SEBI and duly intimated to BSE, NSE and the Target Company on May 22, 2020. Further to the above, a Corrigendum to the Detailed Public Statement dated August 1, 2020 was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Further, a Corrigendum to the Detailed Public Statement dated August 11, 2020, was published on August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Further, the Letter of Offer dated August 18, 2020, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer" or "LoF"), was dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company, as well as filed with SEBI and duly intimated to BSE, NSE and the Target Company on August 18, 2020. Also, the Dispatch Advertisement dated August 18, 2020 ("Dispatch Advertisement") was published on August 19, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Further to the above, the Offer Opening Advertisement and Corrigendum dated August 22, 2020 was published on August 24, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).

Further to the above, please find enclosed a copy of the Post Offer Advertisement dated September 17, 2020 which was published on September 18, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).

You are requested to kindly take note of the above and the obligations of Board of Directors of Target Company in terms of Regulation 24 of the SEBI (SAST) Regulations, and the obligations of Target Company in terms of Regulation 26 of the SEBI (SAST) Regulations.

Thanking you, Yours sincerely,

For Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Authorized Signatory Name: Vishal Kanjani

Designation: Executive Director

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

Registered Office: 301, 3rd Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604;

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES") OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED ("TARGET COMPANY"), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR INVESTMENTS ("ACQUIRER"), TOGETHER WITH CAP V MAURITIUS LIMITED ("PAC"), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private

Limited (hereinafter referred to as 'Manager to the Offer') in respect of the open offer on behalf of Acquirer and the PAC in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations"). This Post Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with:

- the Public Announcement for the Offer, made by the Acquirer and PAC, which was duly intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), by the Manager to the Offer, on May 8, 2020 ("PA"), and a copy of the PA was also sent to the Target Company on May 8, 2020, and was filed with SEBI on May 11, 2020; the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English), all editions
- of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020; the Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English),
- all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), and the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi);
- the letter of offer dated August 18, 2020 in connection with the Offer ("Letter of Offer" or "LoF"); e)
- the dispatch advertisement dated August 18, 2020 ("Dispatch Advertisement"), which was published on August 19, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi); and
- the Offer Opening Advertisement and Corrigendum dated August 22, 2020, which was published on August 24, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).

Capitalized terms used in this post offer advertisement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS, corrigenda to the DPS, and the Letter of Offer.

Name of the Target Company : SeQuent Scientific Limited 1 Name of the Acquirer(s) and PAC : CA Harbor Investments ("Acquirer"), CAP V Mauritius Limited ("PAC")

Name of the Manager to the Offer : Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

: Tuesday, August 25, 2020

: Monday, September 07, 2020

Name of the Registrar to the Offer : Link Intime India Private Limited

Date of Payment of Consideration : Friday, September 11, 2020 Details of Acquisition: Sr

or. No.	Particulars	Proposed in t	he Offer document	Acti	uals
7.1	Offer Price (INR) (per Equity Share)		86.00	86.	.00
7.2	Aggregate number of shares tendered	64	,576,459	4,4	67
7.3	Aggregate number of shares accepted	64	,576,459	4,4	67
7.4	Size of the Offer (INR) (Number of shares multiplied by the offer price per share)	5,55	3,575,474	384,	162
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements/ Public Announcement (No. & %)		r - Nil (0.00%) Nil (0.00%)	Acquirer - I PAC - Ni	` ,
7.6	Shares Acquired by way of Agreements SPA: Number Solution Solu	Up to 14,138	36 Equity Shares 53.02% ,395 Equity Shares to 5.69%	131,675,636 F 53.0 - 0.0	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer Number % of Fully Diluted Equity Share Capital	Up to 64,576	,459 Equity Shares to 26.00%	4,467 Equ 0.00	•
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement (except those pursuant to the Agreements mentioned in 7.6 above) Number of shares acquired Price of shares acquired % of the shares acquired	Not	Nil Applicable 0.00%	Not App 0.0	olicable
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC Number Graph of Fully Diluted Equity Share Capital*		1,536 Equity Shares to 74.00%	131,680,103 I	' '
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public^ • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital*	Pre Offer 105,244,855 42.37%	Post Offer At least 26,530,001 At least 10.68%	Pre Offer 105,244,855 42.37%	Post Offer@ 105,240,388 42.37%
convei Pre Scient Actu share	Diluted Equity Share Capital means the total number of share rtible securities and outstanding employee stock options into the shareholding of the Public does not include 3,6 iffic Employee Stock Option Plan Trust, but includes 14,138,35 all post-offer shareholding has been arrived at, by reducing the notiders, as of the Identified Date.	the equity shares 53,500 (1.47%) I 95 (5.69%) share he shares tende	of the Target Compar Equity Shares which has held by Ascent India red in the open offer, i	ny. nave been allott Fund III. from the shares	ed to SeQuent held by public

The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the Takeover Regulations in respect of the Open Offer.

A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE and NSE and the registered office of the Target Company. ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC, BY THE MANAGER TO THE OFFER:

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India

Tel: +91 22 4037 4037; Fax: +91 22 4037 4111 Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag

SEBI Registration Number: INM000011419

For and on behalf of the Acquirer and the PAC: **CAP V Mauritius Limited** CA Harbor Investments

2

3

Offer Details:

a. Date of Opening of the Offer

b. Date of Closure of the Offer

Sd/-

Authorized Signatory Date: September 17, 2020 Place: Mumbai

L&T Mutual Fund

6th Floor, Brindavan, Plot No. 177 C. S. T. Road, Kalina Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400 email investor.line@Intmf.co.in www.ltfs.com



Notice (No. 24 of F.Y. 2020-21)

Notice for Declaration of Dividend in certain schemes of L&T Mutual Fund:

Notice is hereby given that L&T Mutual Fund Trustee Limited, the Trustees to L&T Mutual Fund ("the Fund"), have approved declaration of dividend (subject to adequacy and availability of distributable surplus) under the dividend options of the below mentioned schemes:

Name of the Scheme	Quantum of Dividend (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)	Net Asset Value ("NAV") as on September 16, 2020 (₹ per unit)
L&T Balanced Advantage Fund - Regular Plan – Dividend Option	0.11		17.405
L&T Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Dividend Option	0.12	10	19.199
L&T Large and Midcap Fund - Regular Plan - Dividend Option	0.14	10	23.829
L&T Large and Midcap Fund - Direct Plan - Dividend Option	0.16	8	27.022

Pursuant to payment of dividend, NAV per unit of the dividend options of the aforesaid schemes will fall to the extent of the payment and statutory levy (if any).

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the record date.

Past performance of the aforesaid scheme may or may not be sustained in future.

The record date for the purpose of declaration of dividend shall be September 23, 2020 ("the Record date"). The dividend will be paid to those unit holders, whose names appear in the register of unit holders of the aforesaid scheme as at the close of the business hours on the Record Date.

Under the dividend re-investment facility, the dividend declared will be re-invested at the ex-dividend NAV. The payment of dividend shall be subject to Tax Deducted at Source (TDS) as applicable.

Please note that in case the aforesaid Record Date falls on a non-business day, the next business day would be considered as the

For L&T Investment Management Limited (Investment Manager to L&T Mutual Fund)

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated August 11, 2020 (the "Letter of Offer" or "LOF")



Minda Industries Limited (the "Company" or the "Issuer") was incorporated as 'Minda Industries Limited' under the laws of the Republic of India with a certificate of incorporation dated September 16, 1992 granted by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Harvana at New Delhi ("RoC"). For details of change in the Registered Office of our Company, please see "General Information" and "History and Corporate Structure" on pages 66 and 94, of the LOF, respectively.

Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi 110 052, India, Corporate Office: Village - Nawada Fatehpur, P.O. - Sikanderpur Badda, IMT Manesar, District- Gurugram 122 004, Harvana, India, Tel: 011-49373931, 0124-2290427/2290428; Contact Person: Tarun Kumar Srivastava, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investor@mindagroup.com; Website: www.unominda.com; Corporate Identity Number: L74899DL1992PLC050333

PROMOTER OF OUR COMPANY: NIRMAL KUMAR MINDA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

ISSUE OF 97,11,739 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 250 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 248 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹2,42,79,34,750 ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 27 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, MONDAY, AUGUST 17, 2020 (THE "ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Minda Industries Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, August 25, 2020 and closed on Tuesday, September 8, 2020. The last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Thursday, September 3, 2020. Out of the total 7,359 Applications for 1,19,35,109 Rights Equity Shares (including 2,946 Applications for 3,81,578 Rights Equity Shares through R-WAP), 943 Applications for 78,067 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 6,416 Applications for 1,18,57,042 Rights Equity Shares, which was 122.09% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalised on September 14, 2020 by the Company in consultation with BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Lead Managers and the Registrar to the Issue. The Company has on September 15, 2020, allotted 97, 11, 739 Rights Equity Shares to the successful Applicants. There are no Rights Equity Shares kept in abeyance. All valid Applications have been considered for Allotment.

The breakup of valid applications received through ASBA and R-WAP (after technical rejections) is given below:

Category	No. of valid Application Forms (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	5,724	84,98,641	8,30,814	93,29,455
Renouncees	692	3,82,284	0	3,82,284
Total	6,416	88,80,925	8,30,814	97,11,739

Category	Application	s Received	Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%	
Eligible Equity Shareholders	6,652	90.39%	1,14,66,552	2,86,66,38,250.00	96.07%	93,29,455	2,33,23,63,750.00	96.06%	
Renouncees	707	9.61%	4,68,557	11,71,39,250.00	3.93%	3,82,284	9,55,71,000.00	3.94%	
Total	7,359	100.00%	1,19,35,109	2,98,37,77,500.00	100.00%	97,11,739	2,42,79,34,750.00	100.00%	

ntimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on September 16, 2020. The instructions to (i) Axis Bank Limited ("Banker to the Issue") for processing refund through NACH/NEFT/RTGS/direct credit for Applications made using R-WAP facility was given on September 15, 2020 and (ii) SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on September 14, 2020. The listing applications were filed with both BSE and NSE on September 15, 2020 and subsequently the listing approvals were received on September 15, 2020 from BSE. and on September 16, 2020 from NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees was completed on September 16. 2020. The Rights Equity Shares Allotted to Applicants whose demat account is inactive or who has provided invalid demat account details, have been credited to the demat suspense account, in accordance with the terms of the Letter of Offer. Such applicants are required to send, among others, details of their correct/active demat accounts to our Company or the Registrar to the Issue either by post, speed post, courier, electronic mail or hand delivery to get the Rights Equity Shares transferred to their respective demat account. For further details, see "Terms of the Issue" on page 248 of the LOF. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE and NSE, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue shall commence trading on BSE and NSE with effect from September 18, 2020. In accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on September 16, 2020. INVESTORS MAYPLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITYSHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLYIN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 206 of the

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 211 of the LOF.

Equirus Capital Private Limited 12" Floor, C Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 Maharashtra, India

E-mail: minda.rights@equirus.com Investor Grievance E-mail: investorsgrievance@equirus.com Website: www.equirus.com Contact Person: Ankesh Jain/Nandini Garq SEBI Registration No.: INM000011286

AXIS CAPITAL Axis Capital Limited

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE

1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India. Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: minda.rights@axiscap.in Investor Grievance E-mail: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Contact Person: Akash Aggarwal

Tel: +91 (22) 4918 6200 E-mail: mil.rights@linkintime.co.in Investor grievance E-mail: mil.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration No.: INR000004058

REGISTRAR TO THE ISSUE

LINKIntime

Link Intime India Private Limited

Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India

C-101, 1" Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg,

SEBI Registration No.: INM000012029 COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Mr. Tarun Kumar Srivastava, Company Secretary and Compliance Officer Village-Nawada, Fatehpur, P.O.Sikanderpur Badda, IMT Manesar, Guruqram 122 004 Haryana, India.

Telephone: 011-49373931, 0124-2291604; E-mail: tksrivastava@mindagroup.com; Website: www.unominda.com

Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process or R-WAP process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail ID of the sole/ first holder, folio number or demat account number, serial number of the Application Form, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process) or amount debited (in case of R-WAP process), ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process), and copy of the e-acknowledgement (in case of R-WAP process). For details on the ASBA process and R-WAP process, please see "Terms of the Issue" on 216 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For MINDA INDUSTRIES LIMITED On behalf of the Board of Directors

Place: Delhi Date: September 17, 2020

Tarun Kumar Srivastava Company Secretary and Compliance Officer

The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com, the website of the Lead Managers to the Issue, i.e., Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com and Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, website of Company at www.unominda.com and website of Registrar at www.linkintime.co.in.Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" on page 22 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in 'offshore transactions' outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. SecuritiesAct to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares and/ or Rights Entitlements is permitted under laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

KONARK SYNTHETIC LTD. Regd, Office Building No. 7, Mits Industrial Estate, Anchestivate Rosel, Sakinsko, Anchest Esta, Number 40056: Tell No. 122 4389 5000; Fast No. 122 4389 5022. Emaillist: storill longing roup zous, Website: svenskonsing out position.

Pursuant to the Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) of Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 23rd September, 2020 inter-- alia to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020. Intimation regarding above is also available on (a)

Company's website viz. www.konarkgroup.co.in (b) Stock Exchange website viz. www.bseindia.com (scrip code: 514128) For Konark Synthetic Ltd.

Mehnuddin Khan Company Secretary & Place : Mumbai Compliance Officer Date: 17th September, 2020 Membership No.: A40156

Website: www.ksk.co.in

Particulars

1 Revenue from Operations

or Extraordinary items)

3 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax), Exceptional and /

Net Profit / (Loss) for the period

and / or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period

Total Comprehensive Income

for the period [Comprising Profit

/ (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive

7 Paid up equity share capital

8 Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Basic / diluted earnings / (loss)

Hon'ble NCLT. Hyderabad on 2nd March 2020.

per share (Rs.10/- each)

website www.ksk.co.in.

or liquidation as per IBC, 2016.

consolidated as on 30.06.2020.

Date: 17.09.2020

Place: Hyderabad

/ or Extraordinary items)

Income (after tax)]

Balance Sheet

after tax (after Exceptional and

before tax (after Exceptional

2 Other Income

'IMPORTANT Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

(Amounts in INR million)

29.11

21.82

4,239.86

21.82 (28,182.70)

21.82 (28,182.70)

21.82 (28,182.70)

4.239.86

(12,384.11)

38.20

2.55

any manner whatsoever.

30-Jun-20 | 31-Mar-20 | 30-Jun-19 | 31-Mar-20

(Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited)

(3.01)

(3.01)

(3.01)

(3.01)

4,239.86 4,239.86

0.001

Note (1): The above is an extract of detailed format of financial results for the quarte

ended June 30, 2020 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Full format of said "financia

results" is available on www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company's

Note (2): (a) The Company has not received any expression of Interest (EOI) from an

prospective resolution applicant. Hence, the Committee of Creditors (CoC) in their

meeting held on 27th Feb. 2020 has decided to liquidate the Company and authorized the

Resolution Professional to intimate the same to Hon'ble NCLT, Hyderabad. Pursuant to

COC decision, the Resolution Professional has filed an application for Liquidation with

(b) The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally and in India caused

significant delays in various activities including the hearings by Hon'ble NCLT for approva

of the application for liquidation. However the company continues to prepare the financial

statements on a going concern basis pending orders of the Hon'ble NCLT on the application

(c) Further more, for these and other reasons, the company no longer can exercise control over the subsidiaries and thereby financial statements of subsidiaries cease to be

Mobile: +91 9849039674 Email: info@ksrfms.com/ksrirp@gmail.com

Sai Ramesh Kanuparthi - Resolution Professional IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00910/2017-18/11510

KSK Energy Ventures Limited

Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30 June 2020

2.30

MA/92/2020 IN CP/230-234/CAA/2020 IN CA/565-569/CAA/2019 In the matter of sections 230 to 232 read with section 52 and 66 and

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

BENCH AT CHENNAI

other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant provisions of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016. In the matter of Composite Scheme of Amalgamation and Arrangement

between Sayaji Hotels Limited and Ahilya Hotels Limited and Sayaji Housekeeping Services Limited and Sayaji Hotels (Pune) Limited and Savaji Hotels Management Limited and their Respective Shareholders and Creditors Sayaji Hotels Limited.

having its Registered Office at F1 C2, Sivavel Apartment, No. 2,

Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai- 600 117, Tamil Nadu Represented by its Director, Mrs. Suchitra Dhanani ... Applicant Company 1/Demerged Company/Transferee Company 1

Ahilya Hotels Limited,

having its Registered Office at F1 C2, Sivavel Apartment, No. 2, Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai- 600 117, Tamil Nadu. Represented by its Director, Mrs. Suchitra Dhanani

... Applicant Company 2/ Transferor Company 1

having its Registered Office at F1 C2, Sivayel Apartment, No. 2,

Sayaji Housekeeping Services Limited,

Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai- 600 117, Tamil Nadu. Represented by its Director, Mrs. Suchitra Dhanani ... Applicant Company 3/ Transferor Company 2

Sayaji Hotels (Pune) Limited

having its Registered Office at F1 C2, Sivavel Apartment, No. 2, Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai- 600 117, Tamil Nadu Represented by its Director, Mrs. Suchitra Dhanani

... Applicant Company 4/Resulting Company 1

Sayaji Hotels Management Limited,

having its Registered Office at F1 C2, Sivavel Apartment, No. 2, Alagappa Nagar, Zamin Pallavaram, Chennai- 600 117, Tamil Nadu Represented by its Director, Mrs. Suchitra Dhanani

.. Applicant Company 5/Resulting Company 2/Transferee Company 2

ADVERTISEMENT OF NOTICE FOR WITHDRAWAL PETITION The application for the withdrawal of the company petitions under sections

230 to 232 read with section 52 and 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 in relation to the Composite Scheme of Amalgamation and Arrangement between Sayaji Hotels Limited and Ahilya Hotels Limited and Sayaji Housekeeping Services Limited and Sayaji Hotels (Pune) Limited and Sayaji Hotels Management Limited and their respective shareholders and creditors ('Composite Scheme') was listed for hearing on 20th July 2020 and thereafter was again listed for hearing on 11" September, 2020. The matter is now listed for hearing on 1" October, 2020 and any person desirous of opposing the withdrawal of the Composite Scheme or Petitions in CP. Nos. 230 to 234 of 2020 may send, to M/s Pawan Jhabakh (advocate of Applicant Companies) at the address or email id mentioned below, their opposition or objections and notice of their intention, signed by them or their Advocate, with their name, contact details and address or the registered office of the Applicant Companies, before 1" day of October, 2020.

Address: M/s. Pawan Jhabakh, new no.115, First Floor, Luz Church Road, Mylapore, Chennai – 600004. E-mail id: kpjhabakh@gmail.com Dated at Chennai this the 18° day of September 2020.

Suchitra Dhanani

Authorised Signatory of Petitioner Companies

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

Registered Office: 301, 3rd Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604; Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR

HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES") OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED ("TARGET COMPANY"), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EXPÁNDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR INVESTMENTS ("ACQUIRER"), TOGETHER WITH CAP V MAURITIUS LIMITED ("PAC"), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER" OR "OFFER"). This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private

Limited (hereinafter referred to as 'Manager to the Offer') in respect of the open offer on behalf of Acquirer and the PAC in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations"). This Post Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with: a) the Public Announcement for the Offer, made by the Acquirer and PAC, which was duly intimated to BSE Limited ("BSE") and National

Stock Exchange of India Limited ("NSE"), by the Manager to the Offer, on May 8, 2020 ("PA"), and a copy of the PA was also sent to the Target Company on May 8, 2020, and was filed with SEBI on May 11, 2020; b) the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English), all editions

of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020: the Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), and the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi);

d) the letter of offer dated August 18, 2020 in connection with the Offer ("Letter of Offer" or "LoF"); the dispatch advertisement dated August 18, 2020 ("Dispatch Advertisement"), which was published on August 19, 2020, in all editions

: SeQuent Scientific Limited

of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi); and the Offer Opening Advertisement and Corrigendum dated August 22, 2020, which was published on August 24, 2020, in all editions of

Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Capitalized terms used in this post offer advertisement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS, corrigenda to the DPS, and the Letter of Offer.

2. Name of the Acquirer(s) and PAC : CA Harbor Investments ("Acquirer"), CAP V Mauritius Limited ("PAC") Name of the Manager to the Offer : Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Name of the Registrar to the Offer : Link Intime India Private Limited Offer Details: a. Date of Opening of the Offer : Tuesday, August 25, 2020

b. Date of Closure of the Offer : Monday, September 07, 2020

Date of Payment of Consideration : Friday, September 11, 2020

7. Details of Acquisition:

1. Name of the Target Company

Proposed in the Offer document Particulars Actuals 7.1 Offer Price (INR) (per Equity Share) 86.00 86.00 7.2 Aggregate number of shares tendered 64,576,459 4,467 7.3 Aggregate number of shares accepted 64.576.459 4,467 7.4 Size of the Offer (INR) 5.553.575.474 384.162 (Number of shares multiplied by the offer price per share) 7.5 Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements/ Acquirer - Nil (0.00%) Acquirer - Nil (0.00%) Public Announcement (No. & %) PAC - Nil (0.00%) PAC - Nil (0.00%) 7.6 | Shares Acquired by way of Agreements SPA: Number 131,675,636 Equity Shares 131,675,636 Equity Shares % of Fully Diluted Equity Share Capital* 53.02% 53.02% Ascent SPA: Number Up to 14,138,395 Equity Shares 0.00% % of Fully Diluted Equity Share Capital* Up to 5.69% 7.7 | Shares Acquired by way of Open Offer Up to 64,576,459 Equity Shares Number 4,467 Equity Shares % of Fully Diluted Equity Share Capital* 0.002% Up to 26.00% 7.8 Shares acquired after Detailed Public Statement (except those pursuant to the Agreements mentioned in 7.6 above) Number of shares acquired Nil Price of shares acquired Not Applicable Not Applicable % of the shares acquired 0.00% 7.9 Post offer shareholding of Acquirer and PAC Up to 183,794,536 Equity Shares 131,680,103 Equity Shares Number % of Fully Diluted Equity Share Capital* Up to 74.00% 53.02% 7.10 Pre & Post offer shareholding of the Public^ Post Offer Pre Offer Post Offer@ Pre Offer At least 26,530,001 105.244.855 105,240,388 105,244,855 At least 10.68% % of Fully Diluted Equity Share Capital* 42.37% 42.37% 42.37%

* Fully Diluted Equity Share Capital means the total number of shares of the Target Company, assuming full conversion of the outstanding convertible securities and outstanding employee stock options into the equity shares of the Target Company.

^ Pre & Post offer shareholding of the Public does not include 3,653,500 (1.47%) Equity Shares which have been allotted to SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust, but includes 14,138,395 (5.69%) shares held by Ascent India Fund III.

[®] Actual post-offer shareholding has been arrived at, by reducing the shares tendered in the open offer, from the shares held by public

shareholders, as of the Identified Date. The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the Takeover Regulations in respect of the Open Offer. 9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE and NSE and the registered office of the Target Company.

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC, BY THE MANAGER TO THE OFFER: Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road, **NOMURA** Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India

For and on behalf of the Acquirer and the PAC:

Authorized Signatory

Date: September 17, 2020

CA Harbor Investments

Authorized Signatory

CAP V Mauritius Limited

Place: Mumbai

Tel: +91 22 4037 4037; Fax: +91 22 4037 4111

SEBI Registration Number: INM000011419

Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com

Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag

PRESSMAN

financialexp.epap.in

Record Date.

Date: September 17, 2020

Place: Mumbai

filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE on page 210 of the LOF.

Tel: +91 22 4332 0600

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट

सूचकांक 323 अक लुढ़का

मुंबई, 17 सितंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर बृहस्पतिवार को विराम लग गया और वैश्विक बाजारों में गिरावट से बीएसई स्चकांक भी 323 अंक लुढ़क गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आर्थिक गतिविधियों में सुधार को लेकर अनिश्चितता जताए जाने के बाद वैश्विक बाजारों पर असर डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और ताजा लिवाली के लिए किसी अहम संकेत के अभाव से बाजार धारणा प्रभावित हुई।

तीस शेयरों वाला बीएसई सुचकांक गिरावट के साथ खुला और पूरे कारोबार के दौरान नकारात्मक दायरे में रहा। अंत में यह 323 अंक यानी 0.82 फीसद की गिरावट के साथ 38,979.85 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88.45 अंक यानी 0.76 फीसद गिरकर 11,516.10 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में बजाज फिनसर्व रही। इसमें 2.23 फीसद

की गिरावट आई। इसके अलवा पावर ग्रिड, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और सन फार्मा में भी दुसरी तरफ एचसीएल गिरावट रही। टेक, इन्फोसिस और मारुति के शेयर लाभ में रहे। इनमें 2.36 फीसद तक की तेजी आई।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में किसी तरह के अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों की घोषणा नहीं की गई। इसका वैश्विक शेयर बाजारों पर असर पडा। हालांकि, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने मुख्य नीतिगत दर कम से कम 2023 तक शुन्य के करीब रहने का संकेत दिया। फे ड र ला रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी कहा कि आर्थिक परिदृश्य काफी अनिश्चित जान पडता है। यानी कंपनियों के लिए अभी समस्याओं की आशंका बनी हुई है।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के निवेशकों की उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहने के बाद वैश्विक बाजारों के हिसाब से घरेलू बाजार में प्रतिक्रिया हुई। ब्याज दर निम्न स्तर पर रखने के संकेत के बावजूद, बाजार में

तत्काल कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने से निराशा रही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद बने रहने को लेकर भी भारतीय बाजारों में चिंता है। बाजार में अनिश्चितता बने रहने की आशंका है और निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर की सूचीबद्धता शानदार रही। यह निर्गम मूल्य 166 रुपए के मुकाबले 111 फीसद लाभ के साथ सूचीबद्ध हुआ। शेयर अंत में निर्गम मूल्य के मुकाबले 123.49 फीसद की बढ़त के साथ 371 रुपए पर बंद हुआ।

वैश्विक स्तर पर एशिया के अन्य बाजारों में चीन में शंघाई और हांगकांग, दक्षिण कोरिया में सोल व जापान का तोक्यो बाजार नुकसान में रहे। युरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रड का भाव 0.26 फीसद की गिरावट के साथ 42.11 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। अंतरबैंक विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे टूटकर 73.66 पर बंद हुआ।

सोने में 608 और चांदी में

1,214 रुपए की गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेतों के बीच दिल्ली सर्राफा

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के मुताबिक सोना भाव 608 रुपए गिरकर

बाजार में सोने का भाव बृहस्पतिवार को 608 रुपए टूटा। जबकि चांदी

52,463 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जबिक चांदी 1,214 रुपए घटकर

69,242 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र के कारोबार में

सोना 53,071 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,456 रुपए प्रति

किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्युरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक

(जिंस) तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली सर्राफा हाजिर बाजार में 24 कैरेट

सोने का भाव 608 रुपए टूटा। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकवाली के

रुख को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के रुख के साथ

1,943.80 डॉलर प्रति औंस और चांदी 26.83 डॉलर प्रति औंस पर रही।

पटेल ने कहा कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व की खुला बाजार समिति

की बैठक के बाद डॉलर सुचकांक के उछलने से सोने में बिकवाली का

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

भी 1.214 रुपए कमजोर रही।

पी-नोट्स के जिए निवेश में तेजी जारी अगस्त में दस महीने के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

इस साल अगस्त महीने के अंत तक घरेलू पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिए निवेश 74 हजार करोड़ रुपए के पार हो गया। यह 10 महीने का उच्चतम स्तर है।

यह लगातार पांचवां ऐसा महीना रहा, जब पी-नोट्स के जरिए निवेश में तेजी आई है। इससे घरेलू पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के बढते भरोसे का पता चलता है। पी-नोट्स पंजीकृत एफपीआई द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जो सीधे पंजीकरण के बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, उन्हें एक उचित वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजारों में पी-नोट्स निवेश का मूल्य 'इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव' में अगस्त अंत तक 74,027 करोड़ रुपए रहा, जबकि जुलाई के अंत में यह 63,228 करोड़ रुपए था। यह अक्तूबर 2019 के बाद पी-नोट्स निवेश का उच्चतम स्तर है। तब ऐसे निवेश का कुल मूल्य 76,773 करोड़ रुपए था।

सेबी में पंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा प्रदाता ग्रीन पोर्टफोलियो के सह-संस्थापक दिवम शर्मा ने कहा कि मार्च 2020 में पी-नोट्स निवेश के 15 साल के निचले स्तर के बाद से इसके माध्यम से एफपीआई निवेशकों की बढती भागीदारी से उनके बढ़ते भरोसे का पता चलता है। इससे

पहले अप्रैल, मई और जून महीने के अंत तक पी-नोट्स के माध्यम से निवेश का स्तर 57,100 करोड़ रुपए, 60,027 करोड़ रुपए और 62,138 करोड रुपए रहा।

मार्च 2020 में पी-नोट्स के माध्यम से निवेश 15 साल से अधिक समय के निचले स्तर 48,006 करोड रुपए पर आ गया था। अगस्त तक किए गए 74,027 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से इक्विटी में 62,811 करोड़ रुपए, ऋण पत्रों में 10,677 करोड़ रुपए, हाइब्रिड सिक्योरिटीज में 338 करोड़ रुपए और डेरिवेटिव खंड में 202 करोड़

अगस्त अंत तक एफपीआई का कुल निवेश भी जुलाई अंत के 31.68 लाख करोड़ रुपए से बढकर 33.1 लाख करोड रुपए पर पहुंच गया।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारतीय बाजार को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

टोयोटा किर्लीस्कर मोटर (टीकेएम) ने गुरुवार को कहा कि वह भारतीय बाजार और उसके राष्ट्रीय उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कंपनी ने एक बार फिर अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के इस दावे का खंडन किया कि टोयोटा अत्यधिक करों के चलते भारत में अपने विस्तार को रोक देगी।

इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडलों की बिक्री करने वाली ऑटो निर्माता ने कहा कि उसे भारत की आर्थिक विकास क्षमता में पूरा विश्वास है और वह इस दिशा में योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

टीकेएम के प्रबंध निदेशक मासाकाजू योशिमुरा ने एक बयान में कहा कि 'भारत की वृद्धि, भारत के साथ वृद्धि' के अपने दृष्टिकोण के तहत देश में अपनी उपस्थिति के पिछले दो दशक के दौरान कंपनी ने विश्वस्तरीय प्रतिभाएं तैयार करने के लिए निवेश किया है और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है।

बीमा उत्पादों की अवधि बढ़ाने पर करेगा फैसला'

'इरडा कोविड-19 संबंधित

रुपए निवेश किए गए।

नई दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा)।

इरडा के चेयरमैन सुभाष सी खुंटिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि नियामक कोविड-19 से जुड़े बीमा उत्पादों की अवधि बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसका कारण इसके टीके के आने में लगने वाला समय है। इसके अलावा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) कोरोना विषाणु के लिए मानक उत्पाद की दिशा में भी काम कर रहा है। यह उत्पाद पॉलिसीधारकों के लिए आसान होगा और उसके लिए भारी-भरकम पॉलिसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

सीआईआई के डिजिटल तरीके से आयोजित बीमा और पेंशन सम्मेलन में खुंटिया ने कहा कि कोविड-19 संबंधित उत्पादों की समयसीमा बढ़ाने के संदर्भ में हम उम्मीद कर रहे थे कि टीका आने में लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के अनुरूप) समय लगेगा। इसको देखते हुए हम उपयुक्त समय पर पॉलिसी की अवधि बढाने के बारे में निर्णय करेंगे। कोरोना कवच नाम से 10 जुलाई को बीमा उत्पाद पेश किया गया था।

बांग्लादेश ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के भारत के फैसले पर जताई चिंता

ढाका, 17 सितंबर (भाषा)।

बांग्लादेश ने किसी सूचना के बिना प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले पर आधिकारिक रूप से अपनी 'गहरी चिंता जताई है। भारत सरकार ने सोमवार को घरेलु बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्याज की सभी कस्मों के नियति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायोग के माध्यम से भेजे पत्र में कहा, '14 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से इस संबंध में दो मित्र देशों के बीच 2019 और 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया गया है।' बांग्लादेश की मीडिया को यह पत्र बुधवार की देर शाम उपलब्ध कराया गया। पत्र में प्याज के निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए आवशचक उपाय करने का अनुरोध

पत्र में कहा गया है कि भारत के अचानक इस संबंध में घोषणा करने से बांग्लादेश के बाजार में आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होगी। पत्र के मुताबिक ढाका में 15-16 जनवरी, 2020 की हुई दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों की एक सचिव-स्तरीय बैठक में बांग्लादेश ने भारत से आवशचक खाद्य वस्तुओं के निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने का अनुरोध किया गया था।



निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष में इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिये सुचना

यह सुचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, यथा-संशोधित (''नियमावली'') के प्रावधानों के अनुपालन में जार

नियमावली के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के अनुसार ऐसे सभी शेयरों जिसके लिये लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश दावा-रहित/अप्रदत्त रहा है, को कम्पर्न द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जाना है। नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने आईईपीएफ में उनकी शेयरों के अंतरण से बचने के लिये त्वरित रूप र

लाभांश का दावा करने के लिये ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचनाऐं भेज दी है जिनका लाभांश (2 अक्टूबर, 2013 को घोषित अंतरिम लाभांश से संबंधित) पिछले 7 (सात) वर्षों से दावा-रहित रहा है। साथ ही कम्पनी ने उनके नाम, फोलियो नम्बर अथवा डीपी आईडी/क्लाइन्ट आईडी आदि सहित ऐसे शेयरधारकों वे सम्पूर्ण विवरणों को अपनी वेबसाईट अर्थात् www.escortsgroup.com पर भी अपलोड कर दिया है। तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि 7 नवम्बर, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें। यदि उपरोक्त तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कम्पनी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होर्त

है तो नियामवली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से आगे कोई सूचना दिये बिना शेयरों को आईईपीएफ की डीमैट खाता में अंतरित कर देगी। नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ में अंतरित दावा-रिहित लाभांश/शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकेगी। संबंधित शेयरधारकों यह भी ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार भौतिक पद्धत्ति में धारित शेयरों के लिये कम्पर्न उनके द्वारा धारित प्रमाणपत्र (त्रों) की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) जारी करेगी तथा उसे जारी करने

के बाद उनके नाम में स्थित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अविचारणीय माना जाएगा। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सुचना माना जायेगा। यदि शेयर डीमैट पद्धत्ति में धारित है नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में ऐसे शेयरों का अंतरण डिपॉजिटरीज के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यवाही के द्वारा किया जायेगा। शेयरधारक ध्यान रखें कि कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में ऐसे शेयरों को एक बार अंतरित कर दिये जाने के बाद

संबंधित शेयरधारक नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। इस विषय पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये शेयरधारक निम्न पर

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी टेली.: 0129-2250222; 0129-2564254 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड श्री राज कुमार काले, वरिष्ठ प्रबंधक, सेलेनियम टावर-

नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, टेली: 040-67162222, फैक्स: 040-23001153 ई-मेलः einward.ris@kfintech.com वेबसाईटः www.kfintech.com

एस्कोर्ट्स लिमिटेड CIN: L74899HR1944PLC039088 जी. कार्यालयः 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा, भारत टेली.: 0129-2250222; 0129-2564254 वेबसाईटः www.escortsgroup.com

एस्कोर्ट्स लिमिटेड के लिये कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी कॉर्पोरेट सचिवालय एवं विधि स्थानः फरीदाबाद तिथि: 17 सितम्बर, 2020

प्रपत्र सं. आईएनसी- 25ए क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में

मै. स्काईटेक एविएशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय है: आर-11, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

एतदहारा आम जनता को सचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 16 सितम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रिति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: आर-11, नेहरू एन्क्लेव, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

> आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से स्काईटेक एविएशन लिमिटेड

> > नीलम खण्डेलवाल (निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली **DIN No: 01341225**

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात 362 266 शास्त्रा कार्यालय : दकान नं. टी / 4, तीसरा तल, मैक्स बिल्डिंग, ब्लाक नं. 86 / 4, संजय प्लेस रोहित गुप्ता मो. 939744685

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रोविजो नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के तहत

ई--नीलामी बिक्री सुचना। एतदद्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे आदित्या बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया गया है, को आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खाते में दिनांक 31-07-2020 तक बकाया रू 1723106/- (रूपये सतरह लाख तेईस हजार एक सौ छः मात्र) एवं पूर्ण भुगतान करने की तिथि तक अग्रिम ब्याज तथा अन्य खर्चे की ऋणकर्ता (ओं) / सह-ऋणकर्ता (ओं) एवं प्रतिभृतिकर्ता (ओं) जिनके नाम पूनम शर्मा, कुलदीप शर्मा, मेसर्स कुलदीप एंटरप्राइजेज जो कि इस कम्पनी के स्वामी है, से वकाया वसूली वे लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है" के आधार

पर दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 को बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। आरक्षित मूल्य रूपये 21,80,250 / – (रूपये इक्कीस लाख अस्सी हजार दो सी पचास मात्र) एव अग्रिम धनराशि (ईएमडी) रू 2,18,025 / - (रूपये दो लाख अटठारह हजार पच्चीस मात्र)। र्डएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 20 अक्तूबर, 2020 है।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति : सम्पत्ति संख्या 62 / 271, नागला कचिया, मुस्तफा क्वार्टर, वार्ड लोहा मंडी तहसील एवं जिला आगरा उत्तर प्रदेश -282001 में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल जिसका मापन 47.37 वर्ग मीटर, उत्तर : 12 फुट 6 इंच का रास्ता, पूर्व : 10 फुट की सडक दक्षिण : राजवीर सिंह यादव की सम्पत्ति, पश्चिम : रामलाल की सम्पत्ति

बिक्री के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आदित्य बिडला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड की वेबसाइट का अवलोकन करें

https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act

https://sarfaesi.auctiontiger.net, सम्पर्क : राम प्रसाद मो. 8000023297 तिथि : 18.09.2020 प्राधिकृत अधिकारी

आदित्य बिडला हाउसिंग फाईर्नेन्स लिमिटेड

मैक्सप्लस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

(पूर्व का एमसी-स्टिच लिमिटेड)

सीआईएन : L65999DL1985PLC022321 पंजीकृत कार्यालय : 1, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

दूरभाष नं. : 011-49057869, ई-मेल : mcstitch.excom@gmail.com; वेबसाइट : www.maxpluslogisticslimited.com 35वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि बैठक आयोजित करने की सुचना में उल्लिखित के अनुसार प्रकार्य के लेन-देन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पुर्वा. 1, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 पर आयोजित की जायेगी। 35वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकत हैं जबकि सदस्यों ने अपने निवेदन इसकी हार्ड कॉपी के लिए न भेजे हों। 35वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ उन अन्य सभी सदस्यो के पंजीकृत पते पर अनुमत्य माध्यमों से भेज दी गयी हैं। 35वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.maxpluslogisticslimited.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी वार्षिक आम बैठक सूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2020 में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। 35वीं एजीएम की सूचना सदस्यों के पास पहले ही 7 सितम्बर, 2020 को भेजी जा चुकी है। कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सेवाएँ ग्रहण की हैं। निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु मैसर्स आर एण्ड डी कम्पनी सेक्रेटरीज, दिल्ली के पूर्णकालिक कार्यरत कम्पनी सचिव श्री देबब्रत देब नाथ को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया है। ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। किसी संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त बाद में सदस्य द्वारा इसमें परिवर्तन की अनमति नहीं होगी। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2020 तक उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। जो सदस्य शेयर अर्जित करते हैं और एजीएम की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी के सदस्य बन गये हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करते हैं वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) या एनएसडीएल से रिमोट ई-वोटिंग हेतु अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त

एजीएम स्थल पर मतदान बैलट पेपर (''बैलट पेपर'') द्वारा सम्पन्न होगा और एजीएम में शामिल होने वाले वे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के उपरान्त भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु एजीएम स्थल पर उन्हें पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से और एजीएम के दौरान भी मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान को वरीयता दी जायेगी और एजीएम के दौरान मतदान को अवैध माना जायेगा।

यह सुचना उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके नाम 29 अगस्त, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी के रिकार्ड में अंकित थे। इलेक्टॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति के लिए सदस्य 35वीं एजीएम की सुचना में निहित निर्देश देखें या एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com देखें तथ िकसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री नितिन एम्बुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ्रिड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोवर परेल, मुम्बई-400013, दूरभाष नं. : 022-24994587, ई-मेल : evoting@nsdl.co.in.

बुक क्लोजर : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 केअनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी तथा 35वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को आयोजित की जायेगी। बैठक स्थल में प्रवेश उपस्थित पर्ची के माध्यम से विनियमित की जायेगी जिसे सदस्यों के पास वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजा जा चुका है। सदस्य एजीएम में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण काउंटर पर विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची प्रस्तुत करें। 35वीं एजीएम, 2020 की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.maxpluslogisticslimited.com पर

उपलब्ध है। बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

दिनांक : 08.09.2020

निदेशक एवं सीईओ डीआईएन : 0009556

मैक्स लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

संजीव चन्द्रा

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES") OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED ("TARGET COMPANY"), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EXPÁNDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR INVESTMENTS ("ACQUIRER"), TOGETHER WITH CAP V MAURITIUS LIMITED ("PAC"), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER" OR "OFFER").

This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited (hereinafter referred to as 'Manager to the Offer') in respect of the open offer on behalf of Acquirer and the PAC in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations"). This Post Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with: the Public Announcement for the Offer, made by the Acquirer and PAC, which was duly intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), by the Manager to the Offer, on May 8, 2020 ("PA"), and a copy of the PA was also sent to the

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18 (12) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

Registered Office: 301, 3rd Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604; Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in

Target Company on May 8, 2020, and was filed with SEBI on May 11, 2020; b) the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020;

the Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English). all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), and the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi);

the letter of offer dated August 18, 2020 in connection with the Offer ("Letter of Offer" or "LoF"); the dispatch advertisement dated August 18, 2020 ("Dispatch Advertisement"), which was published on August 19, 2020, in all editions

of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi): and the Offer Opening Advertisement and Corrigendum dated August 22, 2020, which was published on August 24, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).

Capitalized terms used in this post offer advertisement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS, corrigenda to the DPS, and the Letter of Offer.

1. Name of the Target Company SeQuent Scientific Limited

Name of the Acquirer(s) and PAC : CA Harbor Investments ("Acquirer"), CAP V Mauritius Limited ("PAC") Name of the Manager to the Offer : Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Name of the Registrar to the Offer : Link Intime India Private Limited

Offer Details: a. Date of Opening of the Offer : Tuesday, August 25, 2020

: Monday, September 07, 2020

b. Date of Closure of the Offer

Date of Payment of Consideration : Friday, September 11, 2020

Details of Acquisition:

No.	Particulars	Proposed in	the Offer document	Act	uals
7.1	Offer Price (INR) (per Equity Share)		86.00	86	.00
7.2	Aggregate number of shares tendered	64	,576,459	4,4	167
7.3	Aggregate number of shares accepted	64	,576,459	4,4	167
7.4	Size of the Offer (INR) (Number of shares multiplied by the offer price per share)	5,55	53,575,474	384	,162
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements/ Public Announcement (No. & %)	•	er - Nil (0.00%) - Nil (0.00%)	•	Nil (0.00%) I (0.00%)
7.6	Shares Acquired by way of Agreements SPA: Number Mof Fully Diluted Equity Share Capital* Ascent SPA: Number Mumber Mof Fully Diluted Equity Share Capital*	Up to 14,138	36 Equity Shares 53.02% 8,395 Equity Shares to 5.69%	53.0	Equity Shares 02% - 0%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer Number Share Capital*	•	6,459 Equity Shares to 26.00%		nity Shares 02%
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement (except those pursuant to the Agreements mentioned in 7.6 above) Number of shares acquired Price of shares acquired % of the shares acquired	Not	Nil Applicable 0.00%	Not Ap	lil plicable 0%
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC Number More of Fully Diluted Equity Share Capital*	•	4,536 Equity Shares to 74.00%		Equity Shares
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public^ • Number	Pre Offer 105,244,855	Post Offer At least 26,530,001	Pre Offer 105,244,855	Post Offer [@] 105,240,388

 % of Fully Diluted Equity Share Capital* 42.37% At least 10.68% 42.37% 42.37% * Fully Diluted Equity Share Capital means the total number of shares of the Target Company, assuming full conversion of the outstanding convertible securities and outstanding employee stock options into the equity shares of the Target Company.

^ Pre & Post offer shareholding of the Public does not include 3,653,500 (1.47%) Equity Shares which have been allotted to SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust, but includes 14,138,395 (5.69%) shares held by Ascent India Fund III.

[®] Actual post-offer shareholding has been arrived at, by reducing the shares tendered in the open offer, from the shares held by public shareholders, as of the Identified Date.

The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the Takeover Regulations in respect of the Open Offer. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE and NSE and the registered office of the Target Company. ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC. BY THE MANAGER TO THE OFFER:

NOMURA

Tel: +91 22 4037 4037: Fax: +91 22 4037 4111 Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag **SEBI Registration Number:** INM000011419

Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Ceeiav House, Level-11, Plot F. Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road.

For and on behalf of the Acquirer and the PAC: **CAP V Mauritius Limited CA Harbor Investments**

Place: Mumbai

Authorized Signatory Authorized Signatory Date: September 17, 2020

www.readwhere.com

स्थानः दिल्ली तिथि: 17.9.2020

15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा, भारत वेबसाईटः www.escortsgroup.com ईमेलः corpsl@escorts.co.in

कम्पनी के रजिस्टार तथा अंतरण एजेन्ट, के फिन बी, प्लॉट 31-32, गाद्दीबावली फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट

ईमेलः corpsl@escorts.co.in

१०० टक्के ई पीक नोंदणीत संगमनेर तालुक्यातील सावरगावतळ गाव

राज्यात प्रथम

अहमदनगर, दि.१७ (हिंदुस्थान समाचार) : राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी महसल विभागांतर्गत ई पीक पाहणी हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामापासून प्रायोगिक तत्वावर नऊ तालुक्यात सुरू करण्यात आलेला आहे. यात महसूलमंत्री थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्याचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी,तहसीलदार,उपविभागीय कृषी अधिकारी,तालुका कृषी अधिकारी यांच्या नियोजन व मार्गदर्शनाखाली तालुक्यात पालक अधिकारी नियुक्त करून पीक नोंदणी साठी शेतकर्यांकना मार्गदर्शन करण्या त आले.या वर्षीच्या खरीप हंगामात संगमनेर तालुक्यातील सावरगावतळ या गावाने ८१५ हेक्टर क्षेत्रावर पीक नोंदणी करत आपले १०० टक्के पीक नोंदणीचे उद्दिष्ट पर्ण करून राज्यात ई पीक नोंदणी करणारे पाहिले गाव होण्या चा बहुमान मिळविला आहे.

गावची सर्व नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पोलीस गोरक्ष ,कृषी ढोले,तलाठी गागरे,बाबासाहेब विशेष प्रयत्न केले त्यांना गावातील शेतक-ङ्गांनी सहकार्य केले. मागील हंगामातही सावरगावतळ गावाने सर्वाधिक नोंदणीचे काम केले होते सावरगावतळ या यशाबद्दल महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सर्व अधिकारी यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे. शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या स्मार्ट फोन मध्ये ई पीक पाहणी ह्या अँप द्वारे आपल्या शेतातील उभ्या पिकांची नोंद स्वत:च करायची आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शेतक-ङ्गांना र वत:च आपली पीक नोंदणी करण्याचे स्वतंत्र देण्यात आलेले आहे. ई पीक पहाणी मुळे शासनास प्रत्येक पिकाची,त्या पिकाच्या मिळणाऱ्ङ्गांना उत्पादनाची माहिती योग्य प्रकारे मिळू शकते याचा फायदा योग्य शासकीय धोरण ठरविण्यासाठी होणार आहे. याचबरोबर विविध शासकीय योजना,शेतक-ङ्गांना पिकास योग्य हमी भाव ,बँक पत पुरवठा,

PUBLIC NOTICE

Mr. PYARELAL SINGH, Mrs. PANKUWAR SINGH, Mr. PANKAJ SINGH, Mr. PRITHVIRAJ SINGH members of the name of society) and

olding Shop no 4 , Diamond co op hsg so

Itd., address 'opp. I.I.T. maingate, powai mumbai 400076 in the said building of the society has reported to the society that the

original share certificate bearing numbers 25, distinctive no. 241 to 250. has beer ost/misplaced and application has beer made for duplicate share certificate.

The society hearby invites claims and objections from claimants/objectors fo

ssuance of duplicate Share certificate within a period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice with copies of suc

locuments and other proofs in support of

uplicate share certificate to the Secretary of

nis/her claims objections for issuance

If no claims objection is received within th

If no claims objection is received warm are period prescribed above the society shall issue duplicate share certificate in such manner as is provided under the bylaws of the society. The claims objections if any

received by the society shall be dealt with in the manner provided under the bylaws of the society. For & on behalf of: Diamond co. op.

Secretary

n the above mentioned address.

Date: 18/09/2020

आरआरआयएल लिमिटेड

(पूर्वीची एस आर के इंडस्टीज लिमिटेड)

सीआयएनः एल१७१२१एमएच१९९१पीएली२५७७५०

नोंदणीकृत कार्यालय: ए-३२५, हरि ओम प्लाझा, एम.जी. रोड, ओमकारेश्वर मंदिराजवळ, बोरिवली (पुर्व), मुंबई-४०००६६. दुरध्वनी:०२२-२८९५९६४४, वेबसाईट:www.rrillimited.com, ई-मेल:office@rrillimited.com

भागधारकांना सचना

गुंतवणुकदार शिक्षण व संरक्षण निधी (आयईपीएफ) मध्ये समभागांचे हस्तांतरण

भागधारकांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १२४(६) च्या तरतुदीअंतर्गत आणि सहकार मंत्रालय (एमसीए) द्वारे सुचित गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरिक्षण

हस्तांतरण व परतावा) अधिनियम, २०१६ (आयर्डपीएफ अधिनियम) आणि त्यातील पढील संधारणेनसार कंपनी

. ७ सलग वर्षे किंवा अधिक काळांकरिता देण्यात न आलेले किंवा दावा न केलेले लाभांश संदर्भात सर्व शेअर

सदर नियमानुसार वित्तीय वर्ष २०१२–१३ करिता अंतरिम लाभांश जे संबंधित शेअर्ससह ७ वर्षांच्या कालावधीकरिता दावा न केलेले शेष आहे ते १९ डिसेंबर, २०२० रोजी आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या नावे जमा करणे देय आहे.

आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या डिमॅट खात्यात हस्तांतरीत करण्यात येणाऱ्या शेअर्सचे तपशिल भारतात राहणाऱ्य

. संबंधित भागधारकांना वैयक्तिक सूचना पाठविण्यात आलेले आहेत. कंपनीने असे तपशिल कंपनीच्या <u>http://</u>

<u>www.rrillimited.com/interim-unclaimed-unpaid-dividend</u> वेबसाईटवर आयईपीएप

संबंधित भागधारकांना विनंती आहे की, त्यांनी ३० नोव्हेंबर, २०२० रोजी किंवा त्यापुर्वी वित्तीय वर्ष २०१२-१३

करिता घोषित अंतरिम लाभांशावर दावा करावा, अन्यथा आयईपीएफ प्राधिकरणाच्या नावे त्यांची लाभांश रक्कम

यापुढे सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, आयईपीएफ प्राधिकरणाकडे जमा केलेले शेअर्स व लाभांशसंदर्भात कंपनी

ारील प्रकरणात भागधारकांना काही प्रश्न असल्यास त्यांनी कंपनीची निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी, पुव

शेअरजिस्ट्री (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: आरआरआयएल लिमिटेड (पुर्वीची एस आर के इंडस्ट्रीज लिमिटेड), ९, शिवशक्ती इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००११,

विरोधात कोणताही दावा सांगता येणार नाही. आयईपीएफ प्राधिकरणाकडे लाभांश व शेअर्स हस्तांतरणानंत गिधारकांना नियमात विहित प्रक्रियेत आयईपीएफ प्राधिकरणाकडे अर्ज करून दावा करता येईल.

ाधिकरणाच्या नावे हस्तांतरणास देय असणाऱ्या भागधारकांचे तपशील उपलब्ध आहे

दूर.:०२२–२३०१६७६१, ई–मेल: <u>support@purvashare.com</u> वर संपर्क करावा

शेअर्स हस्तांतरीत केले जातील

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १७.०९.२०२०

गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधी (आयईपीएफ) खात्यामध्ये हस्तांतरण करण्याचे अनिवार्य केले आहे.

पीकविमा संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीपासून नुकसान भरपाई, होणार्याक पिकांच्या नुकसानीला शासकीय अनुदान आदी बाबींसाठी या पीक नोंदणीचा मोठा फायदा होणार आहे.

नम्ना क्र.आयएनसी-२६ (कंपनी (स्थापना) अधिनियम, २०१४ चे नियम ३० नुसार) केंद्र शासन, क्षेत्रिय संचालक.

पश्चिम क्षेत्र, मंबई यांच्या समक्ष आणि कंपनी (स्थापना) अधिनियम २०१४ चे नियम ३० चे उपनियम (५) चे खंड (अ) प्रकरणात

अरुंधती ॲडव्हायझरी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (सीआयएन: यु७०१०९एमएच२००६पीटीसी१६१९८१) यांचे नोंदणीकत कार्यालय: १०१. लक्ष्मी प्लाझा लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, न्यु लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५८

प्तर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, जुलै, २०२० रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत . मंजूर विशेष ठरावानुसार कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय म<mark>हाराष्ट्र राज्यातून राजस्थान राज्यात</mark> स्थलांतरीत **ьरण्याकरिता कंपनीचे मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिए**श रत्नण्याच्या निश्चितीसाठी कंपनीटारे केंट शासन गंच्याकडे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३ अंतर्गत अर्ज करण्याचे योजिले आहे.

...याचिकाकत

कोणा व्यक्तिच्या हितास कंपनीचे नोंदणीकत कार्यालयाच्य नेयोजित बदलामुळे काही बाधा येत असल्यास त्यांनी यांच्या हिताचे स्वरूप व विरोधाचे कारण नमद केलेल्य प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे आक्षोप रजि. पोस्टाने किंवा . तवणकदार तकार नमना भरून **एमसीए-२१ पोर्टल** (www.mca.gov.in) वर सदर सचना प्रकाशन गरखेपासून १४ दिवसांच्या आत क्षेत्रिय संचालक श्चिम क्षेत्र, सहकार मंत्रालय, एव्हरेस्ट, ५वा मजला १००, मरिन डाईव्ह, मुंबई-४००००२ या कार्यालया गठवावी तसेच एक प्रत अर्जदार कंपनीला खाली नम् ऱ्यांच्या नोंदणीकत कार्यालयात पाठवावे.

१०१, लक्ष्मी प्लाझा, लक्ष्मी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, न्यू लेंक रोड, अंधेरी (प.), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५८. अर्जदारांच्या वतीने व करित अरुंधती ॲडव्हायझरी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

भवानी कुमार शाह ठिकाण: मंबर्ड

दिनांक: १८.०९.२०२० डीआयएन:0२0२0३२५

ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा उपक्रम सर्व व्यवसायिकांसाठी पथदर्शी - आ.जगताप

दि.१७ अहमदनगर, (हिंदुस्थान समाचार) : करोना काळात प्रतिकार शक्ती राखून आरोग्य संपन्न राहणे अत्यावश्यक बनले आहे.व्यापार उद्योग करताना व्यावसायिकांनी फक्त स्वतःचीच नाही तर ग्राहकाचीही काळजी घेतली तर करोना ला निश्चितच अटकाव बसू शकतो.नगरची बाजारपेठ हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.कठीण काळात सर्वच व्यावसायिक नियमांचे पालन करून ग्राहकांना सेवा देत आहेत. व्यावसायिक,व्यापारी,दुकानदारां

PB GLOBAL LIMITED

REGD.OFF:CHITALSAR, MANPADA SWAMI VIVEKANANDA ROAD THANE 400607

CIN - L99999MH1960PLC011864

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary iten

otal Comprehensive Income for the Period

Comprehensive Profit/ (Loss) for the period

(after tax) and other comprehensive income

Equity Share Capital (Face Value - Rs. 10/

Reserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in the Audited Balance Sheet of

Per Share)

2. Diluted

the previous year Earnings Per Shares

Tax, Exceptional and/or Extraordinary items

(after Exceptional and/or Extraordinary items

Total Income from Operations

xtract Of Statement Of Un-Audited Financial Results For Year Ended 30th June, 2020

OLES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with e Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure equirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are

requirements Regulatoris, 2017. The full minited the determinance in the desired in the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. (URL of the fillings). B)The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial em(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. Dixceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

च्या प्रयत्नांना ग्राहकांनीही साथ द्यावी.यातून लवकरच आपण सर्व मिळून नगर शहर करोनामुक्त करू,असा विश्वास आ.संग्राम जगताप यांनी व्यक्त केला. शहाजी रोडवरील सो ण्ड सो किडस वेअर ढालनाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपला दालनात प्रत्येक ग्राहकाला रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणार्या व्हिटॅमिन सी च्या देण्यास सुरुवात केली आहे.या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात आ.जगताप यांच्या हस्ते

Amount in Rs

3,906.75

5.50

105 00

30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019

185.97

185.97

144.01

105.00

On behalf of board of PB GLOBAL LIMITED

Parimal Mehta - Managing Director

13,230.96 13,518.22

29.00

29.00

19.32

105.00

4,910.21

Place : Mumbai

करण्यात आली.याप्रसंगी सो ण्ड सो किडस वेअरचे संचालक केतन मुथा,कृतीलाल मुथा,वंदे मातरम युवा प्रतिष्ठानचे ईश्वर बोरा,प्रतिक बोगावत,अमोल देडगांवकर,रवी किथानी, संदीप बायड,विजय आहेर,तेजस पितळे,संभव काठेड,कुणाल नारंग,यश मिरांडे,श्याम भूतकर आदी उपस्थित होते.

आ.जगताप यांनी ग्राहकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. ईश्वर बोरा म्हणाले की,करोनामुळे शहराच्या बाजारपेठेवर परिणाम जाणवत असला तरी सर्व व्यापारी बंधू सकारात्मक राह्न व्यवसाय करीत आहेत.याकाळात दुकानातील कर्मचार्यांचीच नाही तर ग्राहकाचीही काळजी घेतली पाहिजे या संकल्पनेतृन प्रतिष्ठानने ग्राहकांना व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या देण्याचा मांडला.त्याला

मुथा यांनी तात्काळ प्रतिसाढ देत आपल्या आरोग्यदायी उपक्रम सुरू केला. आपण प्रत्येकाने अशापकारे एकमेकांची काळजी शकतो प्रतिष्ठानस्य सदस्यांमार्फत संपूर्ण बाजारपेठेत दुकानदार ग्राहकांची काळजी घेणारे वेगळे उपक्रम राबवतील असा विश्वास आहे.

IND-AGIV)))

IND-AGIV COMMERCE LIMITED

9 to 12, B-Wing, Kanara Business Centre, Laxmi Nagar, Off Chatkopar Andheri Link Road, Ghatkopar (E), Mumbai-400075. India. Tel:-+91-22-25003492/93; Email: info@agivavit.com; Website: www.agivavit.com; CIN: L32100MH1986PLC039004

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE YAER ENDED 31st March, 2020

			Standalone			Consolidate	ed
Sr.		Quarter Ended	Year Ended	P.Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	P. Quarter Ended
No.	Particulars	31/03/2020	31/03/2020	31/12/22019		31/03/2020	31/12/2019
\vdash		Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited
1	Total Income from Operation	584.5	1126.14	118.5	603.39	1296.05	141.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional						
	and/or Extraordinary items)	175.49	30.53	33.84	187.79	32.67	8.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional						
	and/or Extraordinary items)	175.49	30.53	33.84	187.79	32.67	8.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional						
	and /or Extraordinary items)	165.85	20.26	33.84	177.27	21.49	8.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising						
	Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other						
	Comprehensive Income (after tax)]	0	0	0	0	0	0
6	Paid up Equity Share Capital in Number						
	(Face Value of Rs. 10/- each)	10,00,000	10,00,000	10,00,000	10,00,000	10,00,000	10,00,000
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserve Shown in the						
	Balance Sheet)	156.04	156.04	152.81	191.22	191.22	197.31
8	Earning Per Share						
	a) Basic (Rs.)	16.58	2.03	3.38	17.73	2.15	0.85
	b) Diluted (Rs.)	16.58	2.03	3.38	17.73	2.15	0.85
Not	0						·

The above is an extract of detailed fromat of Quarterly /Half Yearly / Annual Financial Results filed with the BSE under Regualtion 33 of SEB (LODR) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.co

For IND-AGIV COMMERCE LTD.

Lalit Lajpat Chouhan - Managing Directo

जाहीर सूचना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, लोखंडवाल कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि श्री. जगदीश सोनी व श्री. वाय.एन. गर्ग यांच्या दरम्यान फ्लॅट क्र.ए/१०४, सिनेट इमारत क्र.१२ कोहौसोलि लोखंडवाला टाऊनशिप, आकुर्ली रोड. मंबई ४००१०१ या जागेबाबत झालेला दिनांव . . . 0३.0३.१९९२ रोजीचा मुळ करारनामा हरवला गहाळ झाला आहे आणि विद्यमान मालक श्रीमर्त नवनीता वर्मा व श्री. अमित वर्मा यांच्या नाब्या नाही, जर कोणा व्यक्तीस उपरोक्त दस्तावेज मालमत्तेवर कोणताही दावा असल्यास त्यांनी सर्द सूचना प्रकाशनापासून १५ दिवसांत कागदोपर्त्र . वियांसह त्यांचे दाव्याचे योग्य स्वरुप नमुद करू खाली नमद केलेल्या पत्त्यावर लेखी स्वरुपात खालीत स्वाक्षरीकर्ताकडे कळवावे. अन्यथा सदर मालमत्त किंवा कोणत्याही भागावरील दावा त्याग केले आहेत आज दिनांकीत १८ सप्टेंबर, २०२०, मुंबई लिगल रेमेडिउ विकल उच्च न्यायाल

> s clear and marketable. R. L. Mishra

PUBLIC NOTICE NOTICE IS given on behalf of my clients 1 SHRI. NANDLAL SUKHARI YADAV 2. SMT

COMPLEX CO-OP. HSG. SOC. LTD., R. N. P Park, Bhayander (East), Tal & Dist-Thane-401105. However, my clients have lost the original agreements 1. Agreement dated 13.05.1998 executed between M/S. REGAL ONSTRUCTION & MR. SANTOSH RIPATHI 2. Agreement dated 23.11.200. xecuted between MR. SANTOSH J. TRIPATH & MRS. KIRAN R. SINGH 3. Agreement date 07.05.2006 executed between MRS. KIRAN F SINGH & MRS. RANI VINOD POTE tween MRS. RANI VINOD POTE & MF IRDHAR M. CHOPADE. If any person havin any claim in respect of the above said original greements by way of sale, exchange, charge ift, trust inheritance possession, lease ortgage, lien or otherwise howsoeve nev/she/he is requested to inform me and th nder signed in writing within 14 days of this otice together with supporting document

Advocate, High Court, Mumba

INDRAVATI YADAV who are the joint owners of Flat No. G-12, GROUND Floor, B wing, REGA ailing which the clients of such person if any wi e deemed to have been waive and no clai ereafter shall be entertained and it shall be ssumed that the title of the said Flat premise

Off. No. 23, 1st Floor, Sunshine Height Near Railway Station, Nallasopara (E),

टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या पुर्वीच्या जाहीर पत्र व्यवहारानुसार २४ सप्टेंबर, २०२० रोजी होणाऱ्या ईओजीएमची तारीख आम्ही १५ दिवसांनी पुढे करीत आहोत आणि आता येथे सूचना देत आहोत की, टेम्बो ग्लोबल रोजी दु.१२.००वा. प्लॉट क्र.पीएपी डी-१४६/१४७, टीटीसी, एमआयडी, तुर्भे, नवी मुंबई-४००७०५ या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्यावर व्हिडीओ कॉन्फरसिंगमार्फर

खालील विषय विमर्षीत केले जातील.

कार्यालय क्र.२, तळमजला, शांती निवास

रोड, कांदिवली (पुर्व), मुंबई-४००१०१

दूर.:९८९२२७६१२६/९६१९११५२१२

9८१९५०२४१५

कोहौसोलि., इमारत क्र.१, पटेल इस्टेट, सी.पी

१) आरबीआय परदेशस्थ गुंतवणूक मार्गदर्शन व फेमा कायद्यानुसार कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १८६ (कंपनीद्वारे उपकंपनीमध्ये गृंतवणुक व कर्ज) अन्वये परदेशस्थ उपकंपनील कर्ज देण्याकरिता कंपनीची अनुमती विचारात घेणे व योग्य असल्यास देणे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता (संजय जशभाई पटेल) व्यवस्थापकीय संचालक डीआयएन:०१९५८०३३

(सीआयएन: एल२९२५३एमएच२०१०पीएलसी२०४३३१)

इंडस्ट्रीज लिमिटेडची १ली विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ९ ऑक्टोबर, २०२०

विशेष विषय:

कोविड-१९ च्या उदेकामळे सहकार मंत्रालयाने (एमसीए) वितरीत परिपत्रक क्र.२०. २०२० दिनांक ५ मे, २०२० सहवाचिता परिपत्रक क्र.१४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र.१७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० (एमसीए परिपत्रक) व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२० नुसा व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी)/इतर अन्य दृकश्राव्य माध्यम (ओएव्हीएम) मार्फत विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थितीशिवाय संपन्न होईल. ईओजीएमकरिता निश्चित ठिकाण म्हणून कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय समजावे. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगमार्फत आणि संबंधित लिंकमार्फत सभा संपन्न होईल आणि याचे तपशील स्पष्टीकरण अहवालासह कंपनीच्या www.nutclamps.com आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी मे. बिगशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एनएसडीएलच्या पोर्टलवर उपलब्ध होईल.

दिनांक: १७.०९.२०२० ठिकाण: नवी मुंबई

पॅनोरमा स्टुडिओज इंटरनॅशनल लिमिटेड

(पुर्वीची अपुनका इन्व्हेस्ट कमर्शियल लिमिटेड) सीआयएन: एल७४११०एमएच१९८०पीएलसी३३०००४ पत्ता: १००३ व १००४, १०वा मजला (वेस्ट साईड), लोटस ग्रॅंड्यूर, विरा देसाई रोड, मुंबई-४०००५३.

अ.	तपशील	एकमेव एकत्रित						
蛃.		संपलेली तिमाही संपलेले वर्ष		संपलेले वर्ष	संपलेली तिमाही		संपलेले वर्ष	
		३०.०६.२०२० अलेखापरिक्षित	३०.०६.२०१९ अलेखापरिक्षित	३१.०३.२०२० लेखापरिक्षित	३०.०६.२०२० अलेखापरिक्षित	३०.०६.२०१९ अलेखापरिक्षित	३१.०३.२०२० लेखापरिक्षित	
१	कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न	२३९७४२९	९२६१४०	२२७४४१७५६	७१०३१९२९	१५७५३१३९१.००	३१५२३३३८३२	
?	एकूण खर्च	३०७५३१०	७२६९६९	२२४८८५८५८	३९३२३७३५	१५७८५७५३४.००	३०४५५३१८३७	
3	कर, अपवादात्मक बाबपूर्व निव्वळ नफा/(तोट)	-६७७८८१	१९९१७१	२५५५८९८	३१७०८१९४	-३२६१४३.00	१०६८०१९९५	
γ	करपुर्व पण, अपवादात्मक बाबनंतर निव्वळ नफा/(तोट)	-६७७८८१	१९९१७१	२५५५८९८	३१७०८१९४	-४८२६१४३.00	१०२३०१९९५	
ų	कर व अपवादात्मक बाबनंतर निव्वळ नफा/(तोटा)	-६२१८४६	१४६७९४	१६२४८९०	२३७७३६७४	-३५५८३०२.००	७८०५२३९५	
ξ	एकूण सर्वकष उत्पन्न	-६२१८४६	१४६७९४	१६२४८९०	२३७७३६७४	-३५५८३०२.००	७७६७२१५८	
b	भरणा केलेले समभाग भांडवल	৬५७६७५००	48400000	७५७६७५००	હેવહફહેવ00	48400000	७५७६७५००	
6	उत्पन्न प्रतिभाग							
	१. मूळ	-0.06	0.0≩	0.26	१.६८	-0.38	७.१	
	२. सौमिकृत	-0.09	0.0३	०.२६	१.४५	-0.38	٤.٧	

टिप: सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेखुलेशन्स, २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक अलेखापरिक्षि वित्तीय निष्कर्षाचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. पॅनोरमा स्ट्रडिओज इंटरनॅशनल लिमिटेडकरि

सही/ कुमार मंगत पाठर व्यवस्थापकीय संचालव डीआयएन:००२९९६३० OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP 10 64,576,459 (SIXIY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH ("EQUITY SHARES") OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED ("TARGET COMPANY"), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR INVESTMENTS ("ACQUIRER"), TOGETHER WITH CAP V MAURITUS LIMITED ("PAC"), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN OFFER" OR "OFFER"). This post offer advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited (hereinafter referred to as 'Manager to the Offer') in respect of the open offer on behalf of Acquirer and the PAC in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as

SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

Registered Office: 301, 3rd Floor, 'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604;

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR

amended ("SEBI (SAST) Regulations"). This Post Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement for the Offer, made by the Acquirer and PAC, which was duly intimated to BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), by the Manager to the Offer, on May 8, 2020 ("PA"), and a copy of the PA was also sent to the Target Company on May 8, 2020, and was filed with SEBI on May 11, 2020;

the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 ("DPS") which was published in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020;

the Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), and the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi);

the letter of offer dated August 18, 2020 in connection with the Offer ("Letter of Offer" or "LoF")

the dispatch advertisement dated August 18, 2020 ("Dispatch Advertisement"), which was published on August 19, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi); and the Offer Opening Advertisement and Corrigendum dated August 22, 2020, which was published on August 24, 2020, in all editions of

Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi). Capitalized terms used in this post offer advertisement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS,

corrigenda to the DPS, and the Letter of Offer

Name of the Target Compa Name of the Acquirer(s) and PAC

CA Harbor Investments ("Acquirer"), CAP V Mauritius Limited ("PAC") Name of the Manager to the Offer Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Name of the Registrar to the Offer Link Intime India Private Limited

Offer Details: a. Date of Opening of the Offer Tuesday, August 25, 2020

Monday, September 07, 2020 b. Date of Closure of the Offer

6 Date of Payment of Consideration Friday, September 11, 2020 Details of Acquisition:

Sr. No.	Particulars	Proposed in t	he Offer document	Act	uals
7.1	Offer Price (INR) (per Equity Share)		86.00	86	.00
7.2	Aggregate number of shares tendered	64	,576,459	4,4	67
7.3	Aggregate number of shares accepted	64	,576,459	4,4	67
7.4	Size of the Offer (INR) (Number of shares multiplied by the offer price per share)	5,55	3,575,474	384	,162
7.5	Shareholding of the Acquirer and PAC before Agreements/ Public Announcement (No. & %)		r - Nil (0.00%) Nil (0.00%)		Nil (0.00%) I (0.00%)
7.6	Shares Acquired by way of Agreements SPA: Number of Moreover Space Sp		36 Equity Shares 33.02%	131,675,636 53.0	Equity Shares
	Ascent SPA: Number Graph of Fully Diluted Equity Share Capital*		,395 Equity Shares to 5.69%	0.0	- 0%
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer Number Shares Acquired by way of Open Offer Fully Diluted Equity Share Capital		,459 Equity Shares to 26.00%		ity Shares 02%
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement (except those pursuant to the Agreements mentioned in 7.6 above) Number of shares acquired Price of shares acquired % of the shares acquired	Not.	Nil Applicable 0.00%	Not Ap	lil plicable 0%
7.9	Post offer shareholding of Acquirer and PAC • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital*		1,536 Equity Shares to 74.00%	131,680,103 Equity Sha 53.02%	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public^	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer®

 % of Fully Diluted Equity Share Capital* 42.37% At least 10.68% 42.37% 42.37% * Fully Diluted Equity Share Capital means the total number of shares of the Target Company, assuming full conversion of the outstanding convertible securities and outstanding employee stock options into the equity shares of the Target Company.

105,244,855

Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India

Tel: +91 22 4037 4037: Fax: +91 22 4037 4111

Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com

At least 26,530,001

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Ceeiay House, Level-11, Plot F. Shiysagar Estate, Dr Annie Besant Road,

105,244,855

105,240,388

^ Pre & Post offer shareholding of the Public does not include 3,653,500 (1.47%) Equity Shares which have been allotted to SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust, but includes 14,138,395 (5.69%) shares held by Ascent India Fund III. Actual post-offer shareholding has been arrived at, by reducing the shares tendered in the open offer, from the shares held by public

shareholders, as of the Identified Date The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the Takeover Regulations in respect of the Open Offer. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE and NSE and the registered office of the Target Company. ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC, BY THE MANAGER TO THE OFFER:

Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag SEBI Registration Number: INM000011419 For and on behalf of the Acquirer and the PAC: **CA Harbor Investments CAP V Mauritius Limited**

Authorized Signatory Authorized Signatory Date: September 17, 2020 Place: Mumbai

PRESSMAN

PUBLIC NOTICE Late Smt. LEELAVATI BAROT was the member of Shivai CHS LTD having address at R-8/17. Saisiddhi Complex Aigaonkar Plot Jogeshwari (E) Mumbai-60 and holding Flat No. 11 on 1st floor in the society died or 27/03/2017 made Nomination the society is hereby invites claims and objection from her hairs or other claimants/objectors to transfer Shares, Membership and Interest of Deceased Member in the capital of society within period of 15 days from the publication of this notice if no claims/objection are received within prescribed period society shall free to deal

office. For Place: Mumbai Secretary Date: 18/09/2020

with Shares, Membership of Deceased Member in the capital of society in such manner provided as under the byelaws of society kept in society

Shivai CHS LTD

ठिकाण: मुंबई

सही/

संजय विश्वकर्मा

कंपनी सचिव

आरआरआयएल लिमिटेडकरित

ई-मेल: info@anivest.co.in वेबसाईट: www.anivest.co.in